



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2080]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 2019/आषाढ़ 12, 1941

No. 2080]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2019/ASHADHA 12, 1941

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

का.आ. 2299(अ).—17.08.2006 को अधिसूचित और 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री राजेश पाटिल, कार्यकारी निदेशक (वैद्युत), महा मेट्रो को इस अधिसूचना की तारीख से महा मेट्रो में महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (महा मेट्रो) की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए महा मेट्रो में उनके कार्यकाल तक, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अधीन मुख्य वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है। श्री राजेश पाटिल को श्री जनक कुमार गर्ग, कार्यकारी निदेशक (रोलिंग स्टॉक), नागपुर मेट्रो रेल परियोजना, जो कि आयुक्त मेट्रो रेलवे सुरक्षा (सीएमआरएस) के रूप में नियुक्ति के पश्चात कार्यमुक्त हुए हैं, के स्थान पर नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार महा मेट्रो की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन सभी वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक अथवा महा मेट्रो की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के नियंत्रणाधीन/महा मेट्रो की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित कार्यों तथा वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

महा मेट्रो की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना यह सुनिश्चित करेगा कि श्री राजेश पाटिल महा मेट्रो की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना में उन्हें कार्यकारी निदेशक (वैद्युत) के रूप में उन्हें सौंपे गये कार्यों के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं.-42/3/2019-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता (आरएण्डआर)

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2019

S.O. 2299(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17.08.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints Sh. Rajesh Patil, Executive Director (Electrical), Maha Metro as Chief Electrical Inspector for Nagpur Metro Rail Project of Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. (Maha Metro) from the date of this Notification till his tenure in Maha Metro, subject to fulfilment of the Qualification and Condition mentioned in the above Rule. Sh. Rajesh Patil is appointed in place of Sh. Janak Kumar Garg, Executive Director (Rolling Stock), Nagpur Metro Rail Project, who has been relieved after his appointment as Commissioner of Metro Railway Safety (CMRS).

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the Nagpur Metro Rail Project of Maha Metro or in respect of works and all electrical installations under the control of Nagpur Metro Rail Project of Maha Metro/belonging to Nagpur Metro Rail Project of Maha Metro as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

Nagpur Metro Rail Project of Maha Metro will ensure that Sh. Rajesh Patil will not be the Chief Electrical Inspector in respect of the work assigned to him as Executive Director (Electrical) in Nagpur Metro Rail Project of Maha Metro.

The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No.- 42/3/2019-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer (R&R)